

संदर्भ: एनसीएल/मुख्या./का. व./श्रमशक्ति/सी.भ./2018-19/513

दिनांक: 11/09/2018

रोजगार सूचना (पैरामे डकल स्टाफ)

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स ल मटेड 'अपने कुल '3' आधुनिक अस्पतालो एवं '10' दवाखानों में नियत मत नियोजन हेतु निम्न पदों में नीचे उल्लेखित की गयी न्यूनतम अर्ह्यता रखने वाले समस्त योग्य एवं इच्छुक 'केवल भारतीय नागरिकों' से सीधी भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित करते हैं।

(1) पद/न्यूनतम योग्यता/ रिक्तियाँ : व भन्न पद, न्यूनतम योग्यता एवं रिक्तियों की संख्या निम्न सारणी संख्या :01 में दर्ज करी गयी है:-

सारणी 01: पद/न्यूनतम योग्यता/ रिक्तियाँ

क्र. सं.	पद	न्यूनतम योग्यता	पद के लए उपयुक्त दिव्यांग की श्रेणियाँ	कुल रिक्तिया				
				सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी (एनसीएल)	कुल
1	स्टाफ नर्स टी & एस ग्रेड सी (प्र शक्षु)	1. 10+2 उत्तीर्ण 2. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा 'ए' ग्रेड नर्सिंग डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट (त्रिवर्षीय) उत्तीर्ण 3. नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया का वैध पंजीयन होना चाहिए	ओएल	24	07	10	07	48
2	तकनी शयन सीटी स्कैन टी & एस ग्रेड सी (प्र शक्षु)	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड/ यूनिवर्सिटी से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण 2. आल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से रेड्योग्राफी (दो वर्षीय नियत कोर्स) में डिप्लोमा उत्तीर्ण। 3. सीटी स्कैन में न्यूनतम 6 माह का विशेष प्रशिक्षण पूर्ण हुआ हो।	ओएल, एचएच	3	0	0	0	3
3	तकनी शयन एमआरआई टी & एस ग्रेड सी (प्र शक्षु)	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड/ यूनिवर्सिटी से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण 2. आल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से रेड्योग्राफी (दो वर्षीय नियत कोर्स) में डिप्लोमा उत्तीर्ण। 3. एमआरआई में न्यूनतम 6 माह का विशेष प्रशिक्षण पूर्ण हुआ हो।	ओएल, एचएच	2	0	0	0	2
								53

[सामान्य = अनारक्षित, एससी= शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी= शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी(एनसीएल) =अन्य पछड़ा वर्ग(नान-क्रीमी लेयर), ओएल=वन लेग, एचएच=हियरिंग इम्पेयर्ड]

वेतनमान/ प्रशिक्षण (जेबीसीसीआई X के अनुरूप)	नोट
Gr C के पदों हेतु : (मासिक दर) रुपये 31852.56 उपरोक्त समस्त पदों हेतु प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष की रहेगी और उक्त अवधि को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के उपरांत प्रशिक्षुओं को उनके पदरूप कैडर के टी&एस ग्रेड C में नियत किया जाएगा	1. उपरोक्त रिक्तिया परिवर्तनीय हैं एवं एनसीएल प्रबंधन उनमें परिवर्तन करने का अधिकार रखता है। 2. उपरोक्त भर्तियों में आरक्षण हेतु समय समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए समस्त प्रावधान लागू होंगे। 3. इस रोजगार सूचना में व भन्न पदों हेतु अर्ह्यताओं(जन्मतिथ/शैक्षणिक/वैधानिक एवं अन्य)की गणना हेतु मानक तिथि ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन करने की अंतिम तिथि ही है। 4. पात्र एक से ज्यादा पदों में अलग अलग आवेदन कर सकते हैं।

(2) अधिकतम उम्र सीमा :

- ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने की अंतिम तिथि को आवेदक की अधिकतम उम्र 30 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए।
- अधिकतम उम्र में एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 5 वर्ष एवं ओबीसी(नॉन क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों हेतु अधिकतम 3 वर्ष की छूट होगी, इसके अतिरिक्त जम्मू एवं कश्मीर राज्य के ऐसे मूल निवासी जो राज्य में दिनांक 01/01/1980 से दिनांक 31/12/1989 के बीच सामान्यतया निवासरत थे उन्हें एवं एक्स सर्विसमें को अधिकतम उम्र में छूट भारत सरकार द्वारा इस बाबत जारी होने वाले व भन्न दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित होगी। एनसीएल एवं सीआईएल की व भन्न अनुबंधी कंपनियों में कार्यरत व भागीय कर्मियों हेतु उम्र की कोई बाध्यता नहीं होगी। साथ ही साथ यह प्रमुखता से स्पष्ट किया जाता है कि उम्र निर्धारण हेतु अभ्यर्थी की जो जन्मतिथि उसके हाई स्कूल/एसएससी या समकक्ष सर्टिफिकेट में दर्ज है उसे ही स्वीकार किया जाएगा एवं भर्ती प्रक्रिया के दौरान कभी भी स्तर पर उसमें कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तिथियाँ					
1	एनसीएल की अधिकृत वेबसाइट पर पूर्ण रोजगार सूचना के उपलब्ध होने की तिथि :	01/10/2018	3	अभ्यर्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन करने की अंतिम तिथि :	12/11/2018 (11:45PM)
2	अभ्यर्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि :	08/10/2018 (00:01AM)	4	अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन भरे गए आवेदन की मुद्रित प्रति को अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित एनसीएल मुख्यालय में पंजीकृत डाक से भेजने की अंतिम तिथि	12/12/2018

समस्त इच्छुक एवं योग्य भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि उक्त रोजगार सूचना की वस्तुतः जानकारी, योग्यताओं, संबंधित सूचनाओं और आवेदन कैसे करे की जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारी अधिकृत वेबसाइट हेतु www.nclcil.in पर जाएं एवं समस्त स्पष्टीकरण हेतु अंग्रेजी में दिये गए रोजगार सूचना को ही अंतिम एवं अधिकृत मानें।

महाप्रबंधक (श्रमशक्ति/भर्ती)